

F.No.7(23)-E.III/84
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 28th March 1984.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Cost recovery under FR 127 in respect of common categories of posts-regarding.

In case of an addition made to a regular establishment on the condition that its cost, or a definite portion of its cost, shall be recovered from the persons for whose benefit the additional establishment is created, FR 127 contains the enabling provisions for effecting cost recovery in such cases. The average annual cost usually taken in respect of the posts of Peon, LDC, UDC, Assistant and Section Officer does not take into account incidences on account of supporting staff etc.

2. The question of including incidences on account of supporting staff etc. also, for the purposes of effecting cost recovery under FR 127, has been under consideration of the Govt. for some time. The President is now pleased to decide that cost recovery in respect of the posts of Peon, LDC, UDC, Assistant and Section Officer under FR 127 shall be effected on the basis of actual cost (inclusive of incidences of supporting staff etc.) to be derived in the following manner:

Peon	Average annual cost usually taken	X 2.00
LDC	" "	X 1.90
UDC	" "	X 1.95
Assistant	" "	X 2.00
Section Officer	" "	X 1.70

3. This Office Memorandum will take effect from the date of its issue.

4. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with C&AG vide their U.O.No. 208-Audit/10-81 dated 1-3-84.

R.C.Puri

(R.C.Puri)

Deputy Secretary to the Government of India


To,
All Ministries/Departments of Government of India

No.F.7(23)-E.III/84

Dated the 28th March, 1984.

Copy forwarded to:-

1. C&AG of India, New Delhi with reference to their U.O. No.208-Audit/10-81 dated 1-3-84.
2. UPSC New Delhi.
3. Election Commission, New Delhi.
4. Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.
5. Supreme Court of India, New Delhi.
6. All State Governments and Union Territory Administrations.
7. Central Vigilance Commission, New Delhi.
8. Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, New Delhi.
9. Ministry of Defence (Finance Division) New Delhi.
10. Railway Board, New Delhi.
11. President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat.
12. Office of the Military Secretary to the President.
13. Planning Commission, New Delhi.
14. Secretary, Staff Side, National Council, 13-C Ferozeshah Road, New Delhi.
15. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM.
16. All India Services Division, Department of Personnel and A.R.
17. All Integrated Financial Advisers of Administrative Ministries.
18. Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers of all Ministries/Departments.
19. Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
20. All Offices/Branches in the Department of Expenditure.
21. Pay and Accounts Officers, Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt.
22. Department of Personnel and AR (Estt.P-I/P.II).



(R.C.Puri)

Deputy Secretary to the Government of India

एफ. संख्या-7१23१-संस्था 0111/84

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सामान्य श्रेणियों के पदों के बारे में मूल नियम 127 के अन्तर्गत लागत वसूली का किया जाना।

वित्तीय नियंत्रित संस्थापन में इस शर्त पर की गई वृद्धि के मामले में कि उसकी लागत, अथवा उसकी लागत के एक निश्चित हिस्से की वसूली उन व्यक्तियों से की जायेगी जिनका लाभ के लिए अतिरिक्त संस्थापन को बनाया गया था, ऐसे मामलों में लागत वसूली किए जाने के लिए अधिकारी व्यवस्थाएं मूल नियम 127 में की गई हैं। चपरासी, अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक और अनुभाग अधिकारी के पदों के संबंध में ली गई औसत वार्षिक लागत में प्रायः सहायक कर्मचारियों, आदि के कारण होने वाले प्रभारों को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

2. मूल नियम 127 के अन्तर्गत लागत वसूली के प्रयोजन के लिए सहायक कर्मचारियों, आदि के कारण होने वाले प्रभारों को शामिल करने का प्रश्न भी कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति जी ने अब यह निर्णय किया है कि चपरासी, अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक और अनुभाग अधिकारी के पदों के संबंध में मूल नियम 127 के अन्तर्गत लागत वसूली, वास्तविक लागत सहायक कर्मचारियों, आदि के प्रभारों सहित के आधार पर नीचे दिए गए तरीके के अनुसार हिसाब लगाकर की जायेगी :

चपरासी	प्रायः	हिसाब में ली जाने वाली औसत वार्षिक लागत	x2.00
अवर श्रेणी लिपिक	"	"	x1.90
उच्च श्रेणी लिपिक	"	"	x1.95
सहायक	"	"	x2.00
अनुभाग अधिकारी	"	"	x1.70

3. यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से लागू होगा।

टिप्पणी

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, वे आदेश नियंत्रक महलेखा परीक्षक के दिनांक 1.3.1984 को अनौपचारिक संख्या 208 - लेखा परीक्षा / 10-81 के अन्तर्गत उनके साथ परामर्श करके जारी किए गए हैं।

रं-रं प्री

॥ आर०सी०ए० ॥
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि आदि।

संख्या रफ 78238-संस्था III/84 दिनांक 28 मार्च, 1984

निम्नलिखित को प्रतिलिपि प्रेषित:-

॥ अंग्रेजी की मानक सूची के अनुसार ॥

- 80 .sx
- 81 .ix
- 82 .ix
- 83 .sx
- 84 .ix